



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 2001/माघ 14, 1922

No. 2]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 2001//MAGHA 14, 1922

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन
के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

का. नि. आ. 5.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा ले. कर्नल ए. के. सरकार का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बरेली में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/17/बरेली/सी /डी ई /99/120/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th January, 2001

S.R.O. 5.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Bareilly by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of the resignation of Lt. Col. A. K. Sarkar.

[F. No. 19/17/Bareilly/ C/DE/99/120/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

का. नि. आ. 6.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, बरेली ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए ले. कर्नल एन. के. नारायन को छावनी बोर्ड, बरेली का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले. कर्नल, ए. के. सरकार के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/17/बरेली/सी /डी ई /99/120/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2001

S.R.O. 6.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Lt. Col. N. K. Narayan has been nominated as a member of Cantonment Board, Bareilly by the Station Commander, Bareilly in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. A. K. Sarkar whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/17/Bareilly/ C/DE/99/120/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

का. नि. आ. 7.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिण कमांड द्वारा श्री. ए. सी. मैथ्यू, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, कन्नानौर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/21/कन्नानौर/सी /डीई/2001/122/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2001

S.R.O. 7.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Cannanore by reason of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of resignation of Sub-Divisional Magistrate Shri A. C. Mathew.

[F. No. 19/21/Cannanore/ C/DE/2001/122/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

का. नि. आ. 8.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट, कन्नानौर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री. ई. देवदासन, डिप्टी कलक्टर (हाऊसिंग) को छावनी बोर्ड, कन्नानौर का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन श्री. ए. सी. मैथ्यू के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/21/कन्नानौर/सी/डीई/2001/122/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2001

S.R.O. 8.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Shri E. Devadasan, Deputy Collector (Housing) has been nominated as a member of the Cantonment Board, Cannanore by the District Magistrate, Cannanore in exercise of the powers conferred under Clause (b) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act vice Sub-Divisional Magistrate A. C. Methew whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/21/Cannanore/C/DE/2001/122/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

का. नि. आ. 9.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण कमान द्वारा कर्नल डी. सी. कटोच का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, पुणे में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/11/पुणे/सी /डी ई /93/121/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2001

S.R.O. 9.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Pune by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of the resignation of Col. D. C. Katoch.

[F. No. 19/11/Pune/C/DE/93/121/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

का. नि. आ. 10.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, पुणे ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नल सुभाष पाटिल को छावनी बोर्ड, पुणे का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल डी. सी. कटोच के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/11/पुणे/सी/डोई/93/121/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2001

S.R.O. 10.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Subhash Patil has been nominated as a member of Cantonment Board, Pune by the Station Commander, Pune in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act vice Col. D. C. Katoch whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/11/Pune/C/DE/93/121/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

का. नि. आ. 11.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिण कमान द्वारा श्री. वी. एस. चौगुला, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बेलगाम में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/31/बेलगाम/सी/डोई/93/119/डी(क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2001

S.R.O. 11.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Belgaum by reason of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of resignation of Sub-Divisional Magistrate Shri V. S. Chougula.

[F. No. 19/31/Belgaum/C/DE/93/119/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

का. नि. आ. 12.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट, बेलगाम ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री. एम. शशीधर, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को छावनी परिषद, बेलगाम का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन श्री. वी. एस. चौगुला के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/31/बेलगाम/सी/डोई/93/119/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2001

S.R.O. 12.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Shri M. Shashidhar Sub-Divisional Magistrate, Belgaum has been nominated as a member of the Cantonment Board Belgaum by the Deputy Commissioner and District Magistrate Belgaum in exercise of the powers conferred under Clause (b) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act vice Sub-Divisional Magistrate V. S. Chougula whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/31/Belgaum/C/DE/93/119/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2000

का. नि. आ. 13.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में वायुसेना मुख्यालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80% कर्मचारी-वृद्ध ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती हैं :—

1. 37, शिल्प परीक्षा
बोर्ड, वायुसेना,
चण्डीगढ़
2. प्रशिक्षण कमान मुख्यालय,
भारतीय वायुसेना,
बंगलूर -560006

[सं. 1 (1)/2000-रक्षा (रा. भा.-1)]

आर. पी. बगाई, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 7th December, 2000

S.R.O. 13.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of Air Force Headquarters, 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

1. 37 Trade Exam Board,
Air Force,
Chandigarh
2. Training Command Headquarters,
Indian Air Force,
Bangalore-560006

[No. 1 (1)/2000-D(OL-1)]

R. P. BAGAI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2000

का. नि. आ. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (समूह 'ग' यांत्रिकीय पद) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया है, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, रक्षा मंत्रालय में कतिपय समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (समूह 'ग' यांत्रिक पद) भर्ती नियम, 2000 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**

जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन सह-ज्येष्ठता या चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रधान (मैकेनिक यांत्रिक और विद्युत)	1*(2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचित	4500-125-7000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8				9		10
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता				प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
11				12		
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा				प्रोन्नति :—ऐसे मैकेनिक (यांत्रिक) जिसने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।		
टिप्पण :—सभी पात्र अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा के वे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रयोजन के लिए व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करें।				टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपनी परिबीक्षा की अवधि, यदि विहित की गई हो, सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
				प्रतिनियुक्ति :		
				केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—		
				(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या		
				(ii) जिन्होंने 4000—6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, और		
				(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :		

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य अर्हता।
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय प्रमाणपत्र।
- (iii) किसी सुस्थापित इंजीनियरी फर्म या किसी मुद्रण स्थापन में मैकेनिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।
- (iv) मुद्रण उद्योग में प्रयुक्त मशीनों की (लाइनो/मोनो और हवाई यंत्रों से भिन्न) यंत्रक्रिया, मरम्मत उनके अनुरक्षण, संचालन और प्रतिष्ठापन की जानकारी/योग्यता अवश्य होनी चाहिए और तकनीकी साहित्य पढ़ने और समझने तथा अतिरिक्त पुर्जों के नाम लिख सकने की योग्यता होनी चाहिए।

टिप्पण-1 (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अर्वाध जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अर्वाध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण-2 प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष
2. संयुक्त बीजलेख ब्यूरो और वायु सेना का मुख्यालय रक्षा मंत्रालय से निर्विलियन स्टाफ ऑफिसर या उसके समतुल्य प्रास्थिति के दो अधिकारी —सदस्य

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. मैकेनिक (यांत्रिक)	3*(2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' राजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

11

12

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति :—ऐसा सहायक मैकेनिक (यांत्रिक) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :—सभी पात्र अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा वे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रयोजन के लिए व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करें।

टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित/पात्रता

सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपनी परीक्षा की अवधि, यदि विहित की गई हो, सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने 3050—4590 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य अर्हता
(ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय प्रमाणपत्र
(iii) किसी सुस्थापित इंजीनियरी फर्म या किसी मुद्रण स्थापन में मैकेनिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
(iv) मुद्रण उद्योग में प्रयुक्त मशीनों की (लाइनो/मोनो और ठलाई यंत्रों से भिन्न) यंत्रक्रिया, मरम्मत उनके अनुरक्षण, संचालन और प्रतिष्ठापन की जानकारी/योग्यता अवश्य होनी चाहिए और तकनीकी साहित्य पढ़ने और समझने तथा अतिरिक्त पुर्जों के नाम लिख सकने की योग्यता होनी चाहिए।

टिप्पण-1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण-2 (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13					14	
1. वर्गित प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय					लागू नहीं होता	
2. संयुक्त बीजलेख ब्यूरो और वायु सेना का मुख्यालय रक्षा मंत्रालय से सिविलियन स्टाफ ऑफिसर या उसके समतुल्य प्रास्थिति के दो अधिकारी					—अध्यक्ष —सदस्य	
1	2	3	4	5	6	7
3. सहायक मैकेनिक (यांत्रिक)	2*(2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' राजपत्रित, अननुसर्चनीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष तक	नहीं

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के

लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधरित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से मैट्रिक।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
2. मुद्रण उद्योग में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के (लाइनो/मोनो और ढलाई यंत्रों से भिन्न) अतिरिक्त पुर्जों के नामों की जानकारी।		
3. मुद्रण उद्योग में प्रयुक्त होने वाली मशीनों की (लाइनो/मोनो और ढलाई यंत्रों से भिन्न) की यंत्र क्रिया की जानकारी और मरम्मत तथा उनका अनुरक्षण करने की योग्यता।		

टिप्पण :—सभी पात्र अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि वे व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करें।

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात् :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 2750-4400 रुपए के या समतुल्य वेतन-मान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) जिनके पाम सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहीत अर्हताएं हैं।

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

टिप्पण :—सभी पात्र अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि वे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रयोजन के लिए व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करें।

टिप्पण—(पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1. वारिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय | —अध्यक्ष | लागू नहीं होता |
| 2. संयुक्त बीजलेख ब्यूरो से सहायक सिविलियन स्टाफ ऑफिसर या समतुल्य प्रास्थिति का अधिकारी | —सदस्य | |
| 3. रक्षा मंत्रालय से अनुभाग अधिवारी की प्रास्थिति का अधिकारी | —सदस्य | |

[फा. सं. ए-34001/ सी.ए.ओ./आर-II]

एन. के. फूकन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

New Delhi, the 17th November, 2000

S.R.O. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations (Group 'C' Mechanical posts) Recruitment rules, 1990, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter service Organisations (Group 'C' Mechanical posts) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay** :—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc** :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the scheduled Castes, the scheduled Tribes, ex-servicemen, Other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection cum-seniority or non-selection post.
1	2	3	4	5
Head Mechanic (Mechanical) and Electrical)	1*(2000)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 4500-125-7000/-	Non-selection

*Subject to variation dependent on workload

178 67/2001-2

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central civil service (Pension) Rules 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation. Note : All eligible candidates will be required to qualify in a trade test for the purpose of promotion or deputation.
In case of recruitment by Promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion : Mechanic (Mechanical) with five years' regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility Service or by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, if prescribed.	Group 'C' Departmental Promotion Committee Consisting of :— 1. Senior Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence —Chairman. 2. Officers of the Status of Civilian Staff Officer or equivalent from Joint Cipher Bureau and Air Headquarters, Ministry of Defence —Member.	Not applicable.
Deputation : Officers of the Central Government : <ol style="list-style-type: none"> (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) With five years regular service in posts in the scale of Rs 4000-6000 or equivalent; and <ol style="list-style-type: none"> Possessing the following educational qualifications and experience. <ol style="list-style-type: none"> Matriculation or equivalent qualification from a recognised University / Board. Trade Certificate from a recognised Industrial Training Institute. Three years experience as a Mechanic in a well established Engineering firm or a Printing establishment. 		

12

- 4 Must possess knowledge/ability of mechanism, repair, maintenance, operation and installation of machines used in the printing industry (other than Lino/ Mono and casting machines), and ability to read and understand technical literature and write names of spare parts.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

1	2	3	4	5
2 Mechanic (Mechanical)	3* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 4000-100-6000/-	Non selection
6	7	8		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
9	10	11		
Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation. Note : All eligible candidates will be required to qualify in a trade test for the purpose of promotion or deputation.		
12	13	14		
Promotion : Assistant Mechanic (Mechanical) with eight years' regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service or by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, if prescribed.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Senior Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence —Chairman. 2. Two officers of the status of Assistant Civilian Staff Officer or equivalent from Joint Cipher Bureau and Air Headquarters, Ministry of Defence —Member.	Not applicable.		

Deputation :**Officers of the Central Government :**

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) With eight years regular service in posts in the scale of Rs. 3050-4590 or equivalent; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience.
 1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised University / Board.
 2. Trade Certificate from a recognised Industrial Training Institute.
 3. One year's experience as a Mechanic in a well established Engineering firm or a Printing establishment.
 4. Must possess knowledge/ability of mechanism, repair, maintenance, operation and installation of machines used in the printing industry (other than Lino/ Mono and casting machines), and ability to read and understand technical literature and write names of spare parts.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

1	2	3	4	5
3 Assistant Mechanic (Mechanical)	2* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-	Not applicable
6	7	8		
Upto 25 years. (Relaxable upto 40 years) upto 45 years in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued	No	1. Matriculation from a recognised University/Board. 2. Knowledge of names of spare parts of machines used in printing industry (other than Lino and Mono type and casting machines).		

6	7	8
<p>by the Central Government.</p> <p>Note :- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>		<p>3. Knowledge of mechanism of machines used in printing industry (other than Lino and Mono type and casting machines) and ability to attend to their repair and maintenance.</p> <p>Note : All eligible candidates will be required to qualify in a trade test for the purpose of direct recruitment.</p>
9	10	11
Not applicable	Two years	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note : Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 2750-4400 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>

2	3	4
Not applicable	<p data-bbox="571 207 933 235">Group 'C' Departmental Promotion</p> <p data-bbox="571 240 877 268">Committee consisting of :—</p> <p data-bbox="571 273 989 393">1. Senior Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence —Chairman</p> <p data-bbox="571 397 949 524">2. Officer of the status of Assistant Civilian Staff Officer or equivalent from Joint Cipher Bureau Ministry of Defence —Member</p> <p data-bbox="571 550 1101 611">3. Officer of the status of Section Officer from Ministry of Defence —Member.</p>	Not applicable

[F. No. A-34001/CAO/R-II]

N. K. PHUKAN, Dy. Chief Administrative Officer